# Tijaria Polypipes Limited



Date: 12/11/2024

To,

The Manager,

Department of Corporate Services

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400001

Scrip Code: 533629

Listing Compliances,

National Stock Exchange of India Limited.

NMN

Exchange Plaza,

Bandra Kurla Complex,

Mumbai-400051

Company Symbol: TIJARIA

Dear Sir,

Sub: : Submission of copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Un-Audited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024

Pursuant to Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, Please find enclosed herewith the copy of Newspaper Advertisement published on 12th November, 2024 in Financial Express (English Edition) and Business Remedies (Hindi Edition) in respect of Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30,2024.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

Yours Truly,

For Tijaria Polypipes Limited

Praveen

Digitally signed by Praveen Jain Tijaria

Jain Tijaria Date: 2024.11.12 / 13:03:21 +05'30'

Praveen Jain Tijaria (Whole time Director)

(DIN: 00115002)



**FINANCIAL EXPRESS** 

0120-6651214

## PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.

Registered Office: House No.4, Ambikagiri Nagar, Milan Path, R. G. Baruah Road, Guwahati - 781 024. CIN No.: L17124AS1987PLC002758 Email: secretarial@bosimi.com, Website: www.pragbosimi.com Statement of Unaudited Consolidated Financial Result for the period ended 30.09.2024

Sr.	DADTIONI ADO	G	Quarter ended	on	Audited 1 Months
No.	PARTICULARS	30-Sep-2024 (Unaudited)	30-Jun-2024 (Unaudited)	30-Jun-2023 (Unaudited)	ended fro April 2023 Mar.2024
1	Total Income from Operations	32.68	0.18	283.76	283.7
2	Profit/(Loss) before exceptional and tax items	(262.91)	(253.15)	(239.41)	(1,157.3
3	Profit/(Loss) before extraordinary item and tax	(262.91)	(253.15)	(239.41)	(1,157.3
4	Profit/(Loss) from ordinary activities before tax	(262.91)	(253.15)	(239.41)	(1,157.3
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax	(262.91)	(253.15)	(239.41)	(1,157.3
6 7	Total other Comprehensive Income for the period Paid-up equity share Capital	(262.91)	(253.15)	(239.41)	(1,157.3
8 9	(Face Value of Rs.10/- each) Reserves excluding revaluation reserves as per balance sheet of the previous accounting year Earning Per Share (before extraordinary items) (of ₹ 10/- each)	7,729	7,729	7,729	7,72 (6,987.1
	a) Basic EPS b) Diluted EPS	(0.34) (0.34)	(0.33) (0.33)	(0.31) (0.31)	(1.5 (1.5

full format of the unaudited results for the quarter ended 30st September 2024 is available on the Company website "www.pragbosimi.com" and on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com For PRAG BOSIMI SYNTHETICS LTD.

RAKTIM KUMAR DAS

Whole Time Director

DIN NO.: 05115126

ARKA

Read. Office: - 2504, 25th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Maharashtra Email: customercare@arkaholdings.com. CIN Number:- 65993MH2018PLC308329

#### NOTICE FOR REMOVAL OF GOODS

Contact No.: - Mr. Abhay Shankar Dubey - 9582835081

The below mentioned Borrower/s are hereby informed to remove their movable assets from the mortgaged property mentioned in the scheduled table below. The said property has been sold through Auction by Arka Fincap Limited under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. The movable assets to be removed from the scheduled property within 10 days from the date of publication of this notice, in failure thereof, the movable assets would be shifted to any rented location and will also be liable to be auctioned at the cost of the borrowers. The Borrower/s will also be liable for any damage caused during the shifting. For other queries contact: Mr. Abhay Shankar Dubey - 9582835081

	LOAN ACCOUNT NO.	Name of Borrower(s)	Details of Mortgage Property
	2002008651	1.M/s. ROJJHA JEWELLER	Property Bearing: - All That Piece And Parcel Of The Buil
		2.Mr. ASHISH KUMAR ROJJHA	Up Property Bearing Number Rz- A-103-A, Old Plot No
		3.Ms. MEGHA SONI	A-103-A, Admeasuring Area Of 100 Square Yards, Khasr
		4.Mrs. SANTOSH DEVI	No. 236, Chak No. 198, Village Bindapur, Jeewan Park
			Pankha Road, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi – 110059
ľ	*In case of discrepar	ncy in translation, the English versi	ion shall prevail

K\*rloskar<sub>Group Company</sub>

Place: - Delhi

Date :- 12.11.2024

Place : Mumbai

Dated: 11.11.2024

The mark 'Kirloskar' in the status line is owned by Kirloskar Proprietary Limited and ARKA Fincap Limited is the permitted user.

#### **GOODLUCK INDIA LTD.** (2) GOODLUCK

Regd. Off: 509, Arunachal Building, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi -110 001 Website: www.goodluckindia.com | E-mail: goodluck@goodluckindia.com | CIN: L74899DL1986PLC050910

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial results for the Half year/Quarter ended on 30th September, 2024 (Rs. in Lakhs) Standalone

		Standalon	ie		Consolidate	u
Particulars	3 months ended on 30/09/2024 (Unaudited)	3 months ended on 30/09/2023 (Unaudited)	6 months ended on 30/09/2024 (Unaudited)	3 months ended on 30/09/2024 (Unaudited)	3 months ended on 30/09/2023 (Unaudited)	6 months ended or 30/09/202 (Unaudited
Total income from operations	97,621.00	88,599.15	1,88,928.86	97,621.00	88,599.15	1,88,928.8
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	6,012.78	4,596.00	10,594.21	6,210.30	4,595.59	10,996.5
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,012.78	4,596.00	10,594.21	6,210.30	4,595.59	10,996.5
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	4,506.35	3,469.80	7,952.94	4,654.16	3,469.39	8,253.9
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,506.35	3,469.80	7,952.94	4,654.16	3,469.39	8,253.9
Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)	654.77	545.13	654.77	654.77	545.13	654.7
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	NA	NA	NA	NA	NA	N
Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations) Basid : Diluted:	13.80 13.80	12.73 12.73	24.60 24.60	14.14 14.14	12.73 12.73	25.3 25.3
	Total income from operations  Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)  Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)  Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)  (for continuing and discontinuing operations)  Basid:	Particulars  ended on 30/09/2024 (Unaudited)  Total income from operations  Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)  Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)  Earnings Per Share (of Rs. 2/- each)  (for continuing and discontinuing operations)  Basid:  13.80	Particulars  ended on 30/09/2024 (Unaudited)  Total income from operations  Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each)  Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)  Rainings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations)  Basic:  13.80  12.73	Particulars  ended on 30/09/2024 (Unaudited)  Total income from operations  Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)  Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]  Equity Share Capital (Face value of Rs. 2 each) 654.77  Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)  Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing and discontinuing operations)  Basic: 13.80 12.73 24.60	Particulars  ended on 30/09/2024 (Unaudited) (Unaudite	Particulars

- 1. The above Financial Results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held
- Previous period figures have been regrouped/reclassified wherever necessary. 3. The Statutory Auditor has carried out a Limited Review of the result of the Company.
- 4. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial results filed with the stock exchange as under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com, www.bseindia.com) and on Company's website (www.goodluckindia.com).

For Goodluck India Limited M C Garg

Place: Ghaziabad Chairman Date: November 11, 2024 DIN:00292437

## Oriental TRIMEX LIMITED

CIN No L74899DL1996PLC078339

AN ISO 9001-2000 CERTIFIED COMPANY REGD OFFICE: 26/25, OLD RAJENDER NAGAR, NEW DELHI -60

Company's website:www.orientaltrimex.com, mail ID: info@orientaltrimex.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30.09.2024.

						(Rs. in lakh	except EPS)
	1	9	Quarter Ended		Half Yea	r Ended	Year Ended
Sr. No.	PARTICULARS	30-09-2024	30-06-2024 Rupee in lacs	30-09-2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
NO.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Income from Operations	193.70	54.33	10.09	248.03	42.21	364.63
2	Total income from Operations	216.70	54.51	44.66	271,21	221.42	549.42
3	Profit before Interest and Depreciation (EBITDA)	-75.83	-1,047.53	57.96	-1,123.36	108.00	-454.73
4	Net Profit before tax from ordinary activities and exceptional items	-231.50	64.52	15.52	-166.98	22.96	-693.92
5	Net Profit after tax from ordinary activities and exceptional items	-214.98	48.00	15.52	-166.98	22.96	-650.17
6	Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive income (after Tax))	-214.98		#		31	8
7	Equity Share Capital	2,940.29	2,940.29	2,940.29	2,940.29	2,940.29	2,940.29
8	Reserve ( excluding revaluation reserves) as shown in audited Balance Sheet		-	#2	*	*	292.77
9	Earning per share after extraordinary items i) Basic ii) Diluted	-0.79 -0.79	0.22 0.22	0.05 0.05	-0.57 -0.57	0.07	-2.36 -2.36

on income after exceptional items.

1 The above results were reviewed by audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors at their meeting held on Monday, 11" November, 2024.

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended 30.09.24. filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the guarter ended 30.09.2024 are available on the company's website http://www.orientaltrimex.com under "Investor" and website of National Stock

Exchange of India Limited and BSE Limited at http://www.nseindia.com and http://www.bseindia.com respectively. Earning Per Share (both basic and diluted) for the quarter ended and year ended 30" September, 2024 has been calculated

For Oriental Trimex Limited

Rajesh Punia 11<sup>th</sup> November, 2024 Managing Director Place: New Delhi Company's website: www.orientaltrimex.com, mail ID: info@orientaltrimex.com

# TIJARIA POLYPIPES LIMITED

REGD. OFF: B-9 Vinayak Complex Station Road, JAIPUR-302006,

CIN: L25209RJ2006PLC022828, EMAIL: INVESTORS@TIJAIRA-PIPES.COM (Rs. In lakhs except the Point No. 7)

Extract of Un-audited standalone financial results for the guarter and six months ended September 30, 2024

Particulars	Three Months Ended Un-audited			Six Month Un-aud	Year ended Audited	
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
Total Income from operations and others	4.50	13.37	6.00	17.87	12.13	33.74
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(92.71)	(61.61)	(64.39)	(154.32)	(149.55)	(289.84)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66
Earnings Per share of Rs. 10/- each (not annualised) Basis	(0.33)	(0.22)	(0.23)	(0.54)	(0.53)	(1.02)
Diluted	(0.33)	(0.22)	(0.23)	(0.54)	(0.53)	(1.02)

Sd/-

**Authorised Officer** 

**ARKA FINCAP LIMITED** 

1. The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11thNovember, 2024.

Previous period figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary.

3. Operating Segments: The Company primarily operates in One segments i.e. Pipes & Textiles. The products considered for each operating segments are: 1) Pipes includes HDPE, PVC pipe, irrigation system;

Place: Jaipur Date: 11.11.2024 For and on behalf of the Directors

Parveen Jain Tijaria-Whole Time Director (DIN: 00115002)

For ISF Limited

**Branch Ofice: Malout** 

#### ISF LIMITED

Regd. Office: Plot No 13 KH. No .33/7, Village Amberhai, Pole No. J967 Sector 19, Dwarka South West Delhi 110077 CIN NO: L74899DL1988PLC076648 email.id info@isflimited.in Phone No.: 0120-3226522, 9105535135 Statement of Unaudited Financial Results for the second quarter and half year ended on 30th September, 2024

(Rs. Lakhs) Year ended Quarter Ended **Particulars** Quarter Ended (Audited) 30.09.2024 31.03.2024 30.09.2023 44.58 58.35 202.33

Total Income from operations Net Profit from ordinary activities after Tax 2.14 -73.892.47 -73.89 2.47 Net Profit for the period after tax (after Extra ordinary itms) 2.14 Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- each) 95000000 95000000 95000000 Reserves Excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year (31.03.2024) 397.72 0.0023 -0.07780.0026 Earning Per Share (before extraordinary items) of Re. 1/- each (not annualised) 0.0023 -0.07780.0026 Earning Per Share (before extraordinary items) of Re. 1/- each (not annualised) Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges

inder Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's Website (www.isflimited.in) The financial results of the company have been prepared in accordance with Accounting Standards (Ind AS) notified under the

Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.

The above results have been reviewed by the Audit Committee were approved and taken on record by the Board of Directors at its

3) Segment reporting as defined in IND-AS 108 is not applicable since the entire operations of the company relates to only one segment

 Figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary. There are no Other Comprehensive Income for the periods presented above.

SD/-Manisha Saxena Place: Delhi Date: 11.11.2024 Company Secretary and Compliance Officer

## PUNJAB & SIND BANK Possession Notice [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Name of Borrowers

Whereas the Undersigned being the Authorized officer of the Punjab and Sind Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of the power conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice to borrower on the dates mentioned hereunder

calling upon the Borrower to repay the amount(s) mentioned in the respective demand notices (s) within 60 days of notice. The borrower/ guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantors and public in general that the undersigned has taken Possession of the property described

the date mentioned against account. The borrowers/guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Punjab and Sind Bank, for the

herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 on

amount mentioned against their names plus interest and other charges accrued thereon till realization. The borrower/Mortgagor attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect

of time available, to redeem the secured assets. Date of

& Mortgagor	Property	Possession	Notice		
Borrower: M/s Garg	1.Equitable Mortgage of property	06.11.2024	21.09.2024	<b>Rs. 26,11,543.02/-</b> (Rs.	
uel Prop. Satgur Dev	area measuring 16 Kanal Under Kh No. 2519 Rect. & Killa No. 233//17	newat No 12	76 Khatoni	Twenty Six Lacs Eleven	
Raj S/o Sh. Hans Raj &	No. 2519 Rect. & Killa No. 233//17	Min(5-12), 1	8Min(2-8).	Thousand Five Hundred	
darantors Satyun	23Min(2.8)   24Min(5.12)     aroa     of	village Mal	out tobeil	Forty three and two	
haran S/o Satgur Dev	Malout as per entries of the jamah	andi for the	vear 2009-	paise only) as on	

Raj, **Sh. Mayank** S/o Satgur Dev Raj, **Sh.** Malout as per entries of the jamabandi for the year 2009-20.09.2024 and interest thereon w.e.f 01.09.2024 Ram Kumar Garg S/o South by: Zalwar Singh, On the East by: Dilwar Singh, On to be charged on monthly the West by: Mohinder Pal Jagdish Ram DATE: 12.11.2024 PLACE: MALOUT **AUTHORISED OFFICER** 

# TARANCINI INVESTMENTS I IMITED

Regd. Office: K-37A, Basement, Kailash Colony, Near Kailash Colony Metro Station, New Delhi - 110048 CIN: L67190DL1982PLC013486, E-mail ID: tarangini0123@gmail.com. EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30.2024

	1					The second secon	s In Lakhs
SI.	Particulars	Quarter ended			Half Yea	Year Ended	
	3	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations	3.365	4.22	5.36	7.585	5.36	29.89
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.11	0.74	1.33	0.63	(1.67)	3.58
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.11	0.74	1.33	0.63	(1.67)	3.58
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-0.11	0.74	1.33	0.63	(1.67)	3.58
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	-0.11	0.74	1.33	0.63	(1.67)	3.50
6	Equity Share Capital	310.60	310.60	310.60	310.60	310.60	310.60
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					11.00.000	
8	Earnings per share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted (in Rs.):	(0.0004)	S.	0.004	0.002	(0.005)	0.008

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For Tarangini Investments Limited

Pankaj Khetan Director (DIN 01567415)

New Delhi

All Advertisement Bookin

## NOTICE FOR E-AUCTION

**NORTHERN RAILWAY** 

Senior Divisional Commercial Manager/FS, Delhi Division, Northern Railway, in terms of Railway Board letter no. 2022/TC(FM)/ 10/04 dated 13.06.2022, invites bids through e-Auction module (www.ireps.gov.in) for the contract of 03 Parcel Scanner Machines (at prescribed locations as per the site map) at Hazrat Nizamuddin Railway Station (NZM) for a period of 5 (five) years as per detail and schedule given below :

S.No.	of e-Auction	Assets to be auctioned					
	25.11.2024 at 11:00 am	03 Parcel Scanner Machines (at prescribed locations as per the site map) at Hazrat Nizamuddin Railway Station (NZM).					
		ct, these 03 parcel scanning machines will be used for scanning ased and Railway booked parcels), loaded at platform only.					
Impor	tant notes:						
1. Fc	r more info	rmation, requirement and various aspects regarding					

these e-Auctions, interested bidders are advised to visit https://www.ireps.gov.in/ html/helpdesk/learning\_centre.html (e-Auction leasing\_section) Earnest Money Deposit (EMD): 5% of the total contractual bid value to be

deposited online during the auction. EMD of the successful bidder will be retained Railway Administration reserves the full and absolute rights to short terminate these contracts at any point of time and or for taking any decision regarding the

discontinuation/continuation of these contracts with modified/additional terms and conditions depending upon the situations. SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE 3501/24

#### MODERN DAIRIES LIMITED CIN: L74899HR1992PLC032998 Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 DATRIEO Registered Office & Works: 136 KM, G.T. Road, Karnal (Haryana)-132001

Extract of Unaudited Financial Results (Reviewed) for the Quarter

and half year ended 30th September, 2024

Particulars (Refer Notes below)	Quarter ended 30 <sup>th</sup> September 2024	Half Year ended 30 <sup>th</sup> September 2024	Corresponding 3 months ended in the previous year 30 <sup>th</sup> September 2023
	(Reviewed)	(Reviewed)	(Reviewed)
Total income from operations (net)	7,420.00	16,878.98	8,062.37
Profit before exceptional items and tax	332.07	717.96	202.07
Profit before tax	331.79	717.63	2,134.07
Profit after tax & other Comprehensive Income	331.79	717.63	2,134.07
Equity Share Capital	2,335.89	2,335.89	2,335.89
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in balance sheet of previous year)	-	-	-
Earning per share (of Rs.10) eah) (a) Basic (b) Diluted	1.42 1.42	3.08 3.08	9.15 9.15

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of the Board of Directors

Place: Chandigarh Date: 11th November, 2024

Krishan Kumar Goyal (Chairman & Mg. Director) (DIN: 00482035)

हंसराज एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U15490UP2014PTC065749 पंजीकृत कार्यालय: सी-23, दुसरी मंजिल, स्वास्तिक गार्डेनिया शिवपुर वाराणसी युपी 221003 फैक्टरी परिसर: बहादुर कॉलोनी, तलमा, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल-735121

बिक्री/नीलामी सूचना

स्लम बिक्री आधार पर कॉरपोरेट देनदार परिसंपत्तियों की बिक्री (दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत परिसमापन में) रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि: 26 नवंबर-2024 शाम 5.00 बजे तक

बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि: 14 दिसंबर-2024 शाम 5.00 बजे तक नीलामी की तिथि और समय: 17 दिसंबर-2024 अपराह्न 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरण के अनसार ई-नीलामी प्रक्रिया द्वारा परिसमापक (माननीय एनसीएलटी

इलाहाबाद बेंच द्वारा नियुक्त) द्वारा प्रस्तावित स्लम्प बिक्री के तहत हंसराज एग्रोफ्रेश प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) कंपनी) की संपत्तियों की बिक्री के संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति के निमंत्रण के लिए आम जनता को नोटिस दिया कॉरपोरेट देनदार की संपत्तियों को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016

के विनियमन 32(बी) के अनुसार "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है", "जो कुछ भी है" और "बिना कोई संसाधन आधार" और इस तरह स्वभाव के लिए कहा गया प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना, के अनुसार

स्लम्प बिक्री के तहत बेचने का प्रस्ताव किया जा रहा है। स्लम्प बिक्री के तहत कंपनी की संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://www.nesl.co.in (प्रत्येक 5

मिनट का असीमित विस्तार) के माध्यम से होगी।

क्र.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	बोली वृद्धि राशि
सं.		(रुपए)	( रुपए)	(रुपए)
1.	स्लम्प की बिक्री के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 32(बी) के अनुसार, बहादुर कॉलोनी, तालमा, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल- 735121 में स्थित कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति, भूमि भवन और संयंत्र और मशीनरी की बिक्री।		50,00,000/-	5,00,000/-

साइट पर जाना और निरीक्षण: 29.11.2024 से 05.12.2024 (10:00 बजे से शाम 5:00 बजे) (पूर्व अनुमति के साथ)

. इच्छुक आवेदक पर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया सचना दस्तावेज का उल्लेख कर सकते हैं जिसमें ऑनलाइन ई–नीलामी. ई-नीलामी बोली फॉर्म, पात्रता मानदंड, बोलीदाताओं द्वारा घोषणा, ईएमडी आवश्यकता आदि के विवरण और शर्ती का विवरण https://www.nesl.co.in और https://hansrajagrofresh.com पर उपलब्ध है।

परिसमापक को किसी भी समय ई नीलामी के किसी भी नियम और शतों को स्वीकार करने या रद्द करने या विस्तारित करने या संशोधित करने का अधिकार है। उसे बिना किसी कारण के किसी भी बोली को अस्वीकार करने का

बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य सभी लागू करों और ड्यूटीज़ के अनन्य होगा और सफल बोली लगाने वाले को सभी लागू करों और ड्यूटीज़ को सहन करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि लागू हो सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कॉरपोरेट देनदार द्वारा दरों या अन्य कर की कोई घटना लाग या वहन नहीं होगी।

दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय सीमा 14.12.2024 है और ई-नीलामी 17.12.2024 को 03:00 बजे से 05:00 बजे तक आईएसटी आयोजित की जाएगी।

> हंसराज एग्रोफ्रेश प्राईवेट लिमिटेड का परिसमापक पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936 एएफए वैधता 27.11.2024 तक परिसमापक का पता: शॉप नं. 5, बी.एस.एम. तिराहा, रूडकी, हरि सिंह मार्केट, हरिद्वार, उत्तराखंड- 247667

दिनांक: 12.11.2024 स्थानः रूड़की ईमेल आईडी: cirp.hapl@gmail.com, मोबाइल: 7535828673

financialexp.epapr.in

Place: New Delhi

Date: 11.11.2024









बिजनेस रेमेडीज

## गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड ने घोषित किए छमाही वित्तीय परिणाम



**बिजनेस रेमेडीज/जयपुर।** गुजरात के राजकोट आधारित कंपनी 'गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड' ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त वित वर्ष 2025 की पहली छमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही में कंपनी का राजस्व गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 30.76 करोड़ रुपए के मकाबले 43.49 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। उक्त अवधि में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 1.04 करोड़ रुपए के मुकाबले 1.13 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही में कंपनी ने 0.70 रुपए का ईपीएस अर्जित किया है।

यह करती है कंपनी : गजानंद इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा सबसे पहले राजकोट एवं आसपास की मंडियों से रॉ-कॉटन यानी कि कपास हासिल की जाती है। इसके बाद कपास का कॉन्टेमिनेशन हटाने के लिए उसकी चरणबद्ध तरीके से क्लीनिंग की जाती है। बीआर जिन मशीन द्वारा लिंट यानी की रूई तैयार की जाती है। प्रेसिंग की मदद से रुई को बेल्स यानि कि गांठ में तब्दील कर दिया जाता है। कॉटन सीड्स को एक्सपेलर मशीन में डालकर कॉटन सीड ऑयल एवं कपासिया खली तैयार की जाती है। कॉटन सीड वॉश आयल को रिफाइंड एडिबल ऑयल बनाने वाली कंपनियों को बि ी किया जाता है। कंपनी की निर्माण इकाई राजकोट के नजदीक जसदान में स्थित है। कंपनी की निर्माण क्षमता प्रतिदिन 250 बेल्स/करीब 40 मेटिक टन प्रतिदिन की है। वहीं कंपनी प्रतिदिन 80 मेटिक टन कॉटन सीड ऑयल बनाने की क्षमता रखती है। इस दौरान प्रतिदिन 68 से 70 टन खली तैयार की जा सकती है। क्योंकि कॉटन सीड में 10 से 12 फीसदी ही ऑयल रिकवरी होती है। कंपनी द्वारा गुजरात में उगाई जा रही बेहतरीन कॉटन फसल शंकर-6 से यार्न तैयार की जा रही है। जिसकी घरेलू यार्न इकाइयों के साथ बांग्लादेश, चीन, टर्की इत्यादि देशों में भारी मांग है। इसके साथ ही कंपनी ऑर्गेनिक, बीसीआई, पीएमआर कॉटन की भी प्रोसेसिंग करती है। कॉटन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए कंपनी अवधि के हिसाब से स्थानीय बाजार या कमोडिटी एक्सचेंज पर हेजिंग करती है।

#### एएए टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने घोषित किए तिमाही और छमाही वित्तीय परिणाम



बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। मुम्बई आधारित कंपनी 'एएए टेक्नोलॉजिस लि.' आईटी, इंफोंमेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग और कंसिल्टिंग क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख कंपनी है। कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही और दूसरी तिमाही के वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में कंपनी का राजस्व गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 5.72 करोड़ रुपए के मुकाबले 4.72 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। उक्त अवधि में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अविध में अर्जित 1.02 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर 1.15 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। 30 सितंबर 2024 को समाप्त छमाही में कंपनी का राजस्व गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 9.24 करोड़ रुपए के मुकाबले 8.64 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। उक्त अविध में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 1.64 करोड़ रुपए के मुकाबले 1.95 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

कंपनी की कारोबारी गतिविधयां: वर्ष 2000 में एएए टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। कंपनी वर्तमान में आईटी, इंफोंमेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग और कंसिट्टिंग क्षेत्र में कार्यरत है। आईटी ऑडिटिंग सर्विसेज में कंपनी कई प्रकार की सर्विसेज जैसे इंफींमेशन सिस्टम ऑडिट, साईबर सिक्योरिटी, आईटी अस्योरेंस एंड कंप्लायंस इनफोंमेशन सिक्योरिटी और आईटी गर्वनेंस सर्विसेज मुहैया करवा रही है। कंपनी के प्रोडक्ट एवं सर्विस पोर्टफोलियो में आईटी सर्विस के साथ ऑडिटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग, आईडीएस, वेब एप्लिकेशंस, ईआरपी, कोर बैकिंग, एटीएम,फोरेंसिक, कंप्यूटर ाईम इंवेस्टीगेशंस इत्यादि शामिल हैं। कंपनी द्वारा वर्तमान में कई प्रकार की इंडस्टीज जैसे बैकिंग. फाईनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, एनबीएफर्सी, गर्वमेंट पंचायत, नगरनिगम, स्टॉक ब्रोकर्स, एजुकेशन, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटेलिटी, मैन्युफेक्चरिंग, हैत्थकेयर, पॉवर इत्यादि में सर्विसेज दी जा रही हैं।

#### एनएमडीसी का शद्ध लाभ सितम्बर तिमाही में 17 प्रतिशत बढकर 1,196 करोड़ रुपये रहा बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 16.66 प्रतिशत बढकर 1,195.63 करोड रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,024.86 करोड़ रुपये रहा था। एनएमडीसी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी कुल आमदनी सितंबर तिमाही में 22 प्रतिशत बढ़कर 5,279.68 करोड रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,335.02 करोड़ रुपये थी।कंपनी के निदेशक मंडल ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है।इसके अलावा, अधिकृत शेयर पूंजी को ४०० करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी गई है।

# सात्विक सोलर को मिला जीएच2 सोलर के लिए 200 मेगावाट सोलर पीवी मॉड्यूल आपूर्ति अनुबंध

**बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली।** सात्विक सोलर ने भारत में विभिन्न सौर परियोजनाओं में उपयोग के लिए 540/550डब्ल्यूपी रेटेड 200एमडब्ल्यू उच्च दक्षता वाले 'मोनो पर्क बाईफेशियल हाफ कट' सोलर पीवी मॉड्यूल आपूर्ति के लिए जीएच2 सोलर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। जनवरी 2025 में शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट 12 महीने की अवधि तक चलेगा. जिसमें सात्विक जीएच2 सोलर की परियोजना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन उन्नत मॉड्यूल की समय पर लगातार डिलीवरी सुनिश्चित करेगा।

इस साझेदारी का उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं की श्रृंखला में अत्याधुनिक, टिकाऊ सौर प्रौद्योगिकी को एकीकृत कर भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देना है, जो देश की सतत ऊर्जा की बढ़ती मांग को परा करता है। इस समझौते के साथ, सात्विक सोलर प्रीमियम-गुणवता वाले मॉड्यूल प्रदान करने के



लिए अपनी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाता है जो परियोजना डेवलपर्स को विभिन्न जलवायु परिस्थितयों में दक्षता और लचीलापन हासिल करने में सक्षम बनाता है। इससे भारत के स्थायी ऊर्जा भविष्य में परिवर्तन को समर्थन

सात्विक सोलर के सीईओ प्रशांत माथुर ने समझौते पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'हम इस बडे पैमाने की परियोजना पर जीएच2 सोलर के साथ सहयोग कर उत्साहित हैं।

हमारे अत्याधुनिक मोनो पर्क बाइफेसियल

मॉडयूल अधिकतम प्रदर्शन और निर्भरता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह पूरे भारत में सौर परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करते हैं। यह सहयोग देश भर में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सात्विक सोलर की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'

जीएच2 सोलर के संस्थापक और सीईओ अनुराग जैन ने साझेदारी में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, 'गहन मूल्यांकन और गुणवत्वापूर्ण उत्पाद और सेवाएँ देने में सात्विक के प्रदर्शन को देखते हुए, हमने इस सप्लाई

आर्डर के लिए सात्विक सोलर का चयन किया है। उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता टिकाऊ और विश्वसनीय सौर ऊर्जा समाधान प्रदान करने के हमारे मिशन के अनुरूप है।' यह समझौता उच्च दक्षता वाले सौर प्रतिष्ठानों के माध्यम से संधारणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देने के जीएच2 सोलर के उद्देश्य के अनुसार है।

गठबंधन को सात्विक सोलर की नवीन तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले सौर मॉड्यूल से लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा उत्पादन और दक्षता को बढाना है। सात्विक सोलर और जीएच2 सोलर के बीच यह सहयोग भारत की स्वच्छ ऊर्जा ांति को आगे बढ़ाने वाली कुशल, संधारणीय और प्रभावशाली अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का उदाहरण है। नवाचार और ग्रुणवत्ता के प्रति सात्विक की प्रतिबद्धता हरित, ऊर्जा-स्वतंत्र भविष्य की ओर भारत की यात्रा को आगे बढाता है।

#### BANSWARA

#### बांसवाडा सिंटेक्स लिमिटेड

सीआईएन नंबर: L24302RJ1976PLC001684 औद्योगिक क्षेत्र, बाहोब रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर २१ बांसवाडा - ३२७००१ (राज.) फोन: 91 2962 240692, 257694, 257680 कॉर्पोरेट कार्यालयः ४-५वी मंजिल, गोपाल भवन, १९९, प्रिरेस स्ट्रीट, मुंबई-४००००२ फोन: +91 22 66336571-76 फ़ैक्स:+91 22 22064486/66336586 ईमेलः secretarial@banswarasyntex.com वेबसाइटः www.banswarasyntex.con

#### डाक मतपत्र सूचना

बांसवाड़ा सिटेक्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सक्स्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की थारा 108, 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, अगर कोई हो, ('अधिनियम'), कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22 ('नियम') और सेबी (सूचीबद्धत (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ('सेबी सूचीबद्धता विनियमों'), साथ में पठित कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, तथा बाद में नवीनतम 9/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 इसके संबंध में परिपत्र जारी किए गए है ('सामृहिक तौर पर एमसीप परिपत्रों'), और सभी अन्य लागू कानूनों और विनियमों (उनके कोई वैधानिक परिवर्तन (नो) या उस समय लागू उसका पनः अधिनयम) के अनुपालन और अनुसरण में एतद्वार राचना दी जाती है कि डाक मतपत्र राचना ('डाक मतपत्र राचना') में निर्धारित किए गए निम्नांकित विशेष व्यवसाय को केवल रिमोट ई-मतब्रन प्रक्रिया (रिमोट ई-मतब्रन') के माध्यम से सदस्यों द्वारा सम्पादित करने का प्रस्ताव है

1 कंपनी के स्वतंत्र निवेशक के रूप में श्री अजय शर्मा (DIN: 06417150) की नियुक्ति को मंजूरी 2 कंपनी के पूर्ण कालिक संचालक के रूप में श्रीमती कविता सोनी (DIN: 03063791) की नियुक्ति को मंजूरी

एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कम्पनी ने शुक्रवार, नवंबर 8, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') को व्यवसाय समय बंद होने तक कम्पर्न के उन सक्स्यों को जिन सक्स्यों के नाम सक्स्यों के रिजस्टर या कम्पनी एवं डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभर्थी स्वामियों की सूर्य क्रमशः में दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कम्पनी एवं डिपॉजिटरी के यहां पंजीकृत है उन्हें सोमवार, नवंबर 11, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्रेषित कर दी हैं। डाक मतपत्र सूचना दिनांक नवंबर 5, 2024 को कम्पनी की वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइटों क्रमश्चः <u>www.bseindia.com</u> तथा <u>www.nseindia.com</u> पर, और सेंद्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, (सीडीएसएल) की वेबसाइट <u>www.evotingindia.com</u> पर भी उपलब्ध है।

जिन सक्त्यों के नाम कट-ऑफ तिथि पर सबस्यों के रजिस्टर और लाभावीं स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, वे डाक मतपत्र सूचना में बताए गए प्रस्ताव पर मत डालने हेतु योग्य हैं। सदस्यों का मतायिकार कट-ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित प्रदत्त इक्विटी शेयरों के समानुपात में गिन जाएगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे डाक मतपत्र सूचना को केवल जानकारी के रूप में लें।

एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी ने रिमोट ई-मतदान द्वारा संकल्प पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने सीडीएसएल के साथ एक समझौता किया है। रिमोट ई-मतब्बन के लिए विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश डक मतपत्र सूचना में वर्णित किए गए है। सदस्यों से अनुरोध हैं कि वे ध्यान दें कि रिमोट ई-मतब्बन के माध्यम से मत डालने की सुविधा निम्नीलियत अवधि के दौरान उपलब्ध होगी

रिमोट ई-मतदान की शुरुआत बुधवार, नवंबर 13, 2024 को पूर्वा. 09:00 बजे (भा.मा.सं.) रिमोट ई-मतदान की समाप्ति | गुरुवार, दिसंबर 12, 2024 सायं 05:00 बजे (भा. मा.सं.)

उपरोक्त मतदान अवधि के समास हो जाने पर सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-मतदान की सुविधा बंद कर दी जाएगी। श्री मिहेन हलानी, (एफसीएस: 9926, सी पी नं. 12015) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मुम्बई, को पोस्टल बॅलेट/ रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिय को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए एक जांचकर्ता (संवीक्षक/स्क्रुटिनाङ्जर') के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पते का पंजीकरण नहीं कराया है, वो इस डाक मतपत्र सूचना को प्राप्त करने के लिए नीचे उक्षिखित

प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर 1 को फॉर्म में उक्षिरिवर अपेक्षित बस्तावेजों के साथ हमारे रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नित्रिवत पते पर भेजना होगाः कंप्यूटेक श्वेयरकेप लिमिटेड, यूनिटः बांसवाड़ा सिटेक्स लिमिटेड, पता- 147, महारमा गांधी रोड, जहाँगीर आर्ट गैलरी के सामने, फोर्ट, मुंबई 400 001

डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए:

इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पैन और बैंक खाते के विवरण को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत / अपडेट करें जहां उनके संबंधित डीमटेरियलाइज्ड खाते रखे गए हैं।

डाक मतपत्र के परिणामों को सोमवार, दिसंबर 16, 2024 सायं 5:00 बजे (भा. मा. स.) को या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उसी के साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तथा उसके मुख्य व्यावसायिक कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामों कं कंपनी की वेबसाइट. सीडीएसएल की वेबसाइट पर भी पदर्शित किया जाएगा और एनएसई और बीएसई को भी सचित किया जाएगा। ई-मतदान प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी जानकारी हेतु सदस्य www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रेक्वेंटली आस्कड क्वेस्चन (एफएक्यू) और वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टॉल फी नं. 1800 21 09911 पर कॉल करें या अपना निवेदन <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर भेजें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतवान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेष्ठ बलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वें मंजिल. मैराधन फ्यचरएक्स. मफतलाल मिल कंपाउंडस एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुंबई - 400013 य

helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल भेजें या टोल फी नंबर 1800 21 09911 पर कॉल करें। कते बांसवाडा सिंटेक्स लिमिटेड दिनांकः नवंबर ११, २०२४ स्थानः मुम्बई

राकेश मेहरा

डी. आई. एन.-00467321

#### तिजारिया पोलिपाईप्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय- बी-९ विनायक कॉम्पलेक्स स्टेशन रोड, जयपुर-302006

सीआईएन: L25209RJ2006PLC022828, ईमेल: INVESTORS@TIJAIRA-PIPES.COM

(प्वाइंट नंबर ७ को छोड़कर रूपये लाखों में) 30 सितम्बर 2024 को समाप्र तिमाही और छह महीनों के लिए अन-ऑडिटेड स्टैंड्यलोन विनीय परिणाम

उठ स्तिष्यदे, २०२४ को समात तिमारा अस् उर्द महामा के लिए अभ-आउटेड स्टड्अलाम विसाय वास्पाम								
विवरण	समाप्त तिमाही अन्यांकेक्षित			समाप्त छः माही अनअंकेक्षित				
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024		
परिचालनों से कुल आय व अन्य	4.50	13.37	6.00	17.87	12.13	33.74		
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, असाधारण और या असाधारण वस्तुओं से पहले)	(92.71)	(61.61)	(64.39)	(154.32)	(149.55)	(289.84)		
अवधि के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)		
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)		
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि) और अन्य समावेशित आय (कर पश्चात)	(93.06)	(61.61)	(66.19)	(154.67)	(151.35)	(291.64)		
समता अंश पूंजी (रु.10/- प्रति का अंकित मूल्य)	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66	2862.66		
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का अंकित मूल्य) (वार्षिक नहीं)								
मूल	(0.33)	(0.22)	(0.23)	(0.54)	(0.53)	(1.02)		
तबुकृत	(0.33)	(0.22)	(0.23)	(0.54)	(0.53)	(1.02)		
टिमापिएर्गें.	•							

1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा और अनुशंसा की गई है और निवेशक मंडल द्वारा 11 नवंबर, 2024 को को आयोजित उनकी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

2. जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां पिछली अवधि के आंकड़ों को फिर से इकद्वा / पुर्नव्यवस्थित किया गया है।

3. ऑपरेटिंग सेगमेंट: कंपनी मुख्य रूप से एक सेगमेंट यानी पाइप्स और टेक्सटाइल्स में काम करती है। प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए विचार किए जाने वाले उत्पाद हैं: 1) पाइप में एचडीपीई, पीवीसी पाइप, सिचाई प्रणाली शामिल हैं।

स्थानः जयपुर

दिनांक: 11.11.2024

निदेशकों की ओर से प्रवीण जैन तिजारिया पूर्ण कालिक निदेशक

#### Vaibhav Global Limited Rend, Off.: K-6B, Fateh Tiba, Adarsh Nagar, Jaipur-302004

Tel: 91-141-2601020; CIN: L36911RJ1989PLC004945;

E-Mail: investor\_relations@vaibhavglobal.com; Website: www.vaibhavglobal.com

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR TO DATE ENDED 30 SEPTEMBER 2024

9		Consolidated					
S. No.	Particulars	Quarte	r Ended	Year to date ended			
No.	Particulars	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024			
+		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)			
1	Total Income from Operations (Net)	79,642.91	70,499.93	155,243.83			
2	Other Income	885.19	342.10	1,747.09			
3	Total Income	80,528.10	70,842.03	156,990.92			
4	Net Profit from Ordinary Activities (before tax and exceptional items)	3,931.38	4,137.73	7,669.66			
5	Net Profit from Ordinary Activities before tax (after exceptional items)	3,931.38	4,137.73	7,669.66			
6	Net Profit from Ordinary Activities after tax (after exceptional items)	2,777.58	2,902.64	5,522.49			
7	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period		10.000				
	(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,337.03	2,992.16	7,793.43			
8	Equity Share Capital	3,317.41	3,306.35	3,317.41			
9	Earnings Per Share (of ₹ 2 each) (for continuing & discontinued operations)			7.5 4.5			
	i) Basic EPS	1.68	1.78	3.35			
	ii) Diluted EPS	1.65	1.75	3.29			

- The above unaudited consolidated financial results for the quarter ended 30 September 2024 and year to date ended for the period from 01 April 2024 to 30 September 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11 November 2024. These financial results for the quarter ended 30 September 2024 and year to date ended for the period from 01 April 2024 to 30 September 2024 have been reviewed by the Statutory Auditors of the Parent Company
- These unaudited consolidated financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015.
- Key numbers of standalone financial results of the Parent Company, i.e., Vaibhav Global Limited are as under:

272-067	Quarte	Year to date ender		
Particulars	30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	
Total Income	21,722.12	13,840.40	37,127.87	
Profit before tax	5,670.13	2,150.08	6,963.15	
Total Comprehensive Income	5,362.42	2,086.79	6,443.96	

- The unaudited consolidated financial results include the financial results of Parent Company and the financial results of the following subsidiaries and step-down subsidiaries (collectively referred as 'the Group'):
  - A. VGL Retail Ventures Limited, Mauritius
  - a. Shop TJC Limited, UK
  - i. Shop LC Global Inc., USA
  - i. Mindful Souls BV, Netherlands (acquired on 26 September 2023) B. STS Global Supply Limited, Hong Kong
  - a. Pt. STS Bali, Indonesia

  - b. STS (Guangzhou) Trading Limited, China C. STS Jewels Inc., USA
  - D. STS Global Limited, Thailand
  - E. STS Global Limited, Japan F. Vaibhay Vistar Limited, India

  - G. Vaibhay Lifestyle Limited, India
  - H. Shop LC GmbH, Germany
  - I. Encase Packaging Private Limited, India (Up to 30 September 2024)
  - J. Vaibhay Global Employee Stock Option Welfare Trust
  - All Subsidiaries are wholly owned except Encase Packaging Private Limited.
  - The Parent Company have allotted 157,143 and 338,244 equity shares having face value of ₹ 2/- each for the quarter ended 30 September 2024 and year to date for the period from 01 April 2024 to 30 September 2024 respectively, under the Company's various Employees Stock Option Benefit Schemes through Vaibhav Global Employee Stock Option Welfare Trust at exercise price ranging from ₹ 2.00 -
- 6 Item exceeding 10% of total expenditure (included in other expenses):

		Quarter Ended		Year to date ended		Year ended	
Particulars	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	31.03.2024	
Content and broadcasting expenses	15,423.06	15,589.65	11,064.03	31,012.71	21,678.26	50,172.40	

- In earlier years, the Parent Company received notices from the Income Tax Department ("ITD") under Section 148 of the Act for Assessment Year 2012-13 to Assessment Year 2015-16. During previous quarters, the Honorable High Court of Rajasthan has quashed the proceedings for Assessment Year 2012-13 to Assessment 2015-16 on technical grounds. Based upon the nature and external expert opinion obtained by the Parent Company, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings
- The Income Tax Department ("the ITD") conducted a Survey proceeding under section 133A of the Act at the premises of the Parent Company in November 2021. Subsequently, the Parent Company is providing all cooperation and necessary data/ docu Information. During previous year, the Parent Company received notices under Section 142 (1) for Assessment Year 2019-20 to Assessment Year 2022-23 requiring further information. As on date, based upon the nature, the management does not expect any liability to arise out of these proceedings
- The Board of Directors of the Parent Company has declared interim dividend of ₹ 1.50/- per fully paid-up equity shares of ₹ 2/- each. The Parent Company has fixed 20 November 2024 as the record date for payment of interim dividends on equity shares. The said interim dividend will be credited / dispatched to the respective equity shareholders within 30 days of the declaration of dividend. In addition to the above interim dividend of ₹ 1.50/-, an interim dividend of ₹ 1.50/- per share i.e., 75% on equity share capital was declared and paid during the current period. Hence total dividend of ₹ 3.00/- has been declared during the current period.
- 10 During previous year, Shop TJC Limited, UK (wholly owned subsidiary) acquired 100% stake in Mindful Souls BV, Netherlands from an unrelated party for a total consideration of ₹ 10,406.02 lacs (equivalent EURO 119.10 lacs) (including contingent consideration of ₹ 1,048.90 lacs (equivalent EURO 11.54 lacs) w.e.f. 26 September 2023. The fair value of the assets and liabilities acquired was determined and accounted in accordance with Ind AS 103-"Business Combination". This acquisition helps the Group in creating synergies through the deep sourcing and manufacturing abilities and also strengthen the digital businesses.
- 11 Exceptional items consist of the following for impairment expense:

Particulars	Quarter Ended			Year to date ended		Year ended	
	30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09,2024	30.09.2023	31.03.2024	
Impairment of property, plant and equipment (including capital work in progress)	X			1	4	649.21	
Impairment of goodwill	- ~ m					156.94	
Total				-	-	806 15	

- 12 During current quarter, the Parent Company has sold its entire investment (60% shareholding) in Encase Packaging Private Limited India (Subsidiary) to an unrelated party at a total consideration of ₹ 50.00 lacs. The transaction was finalized on 30 September 2024 and accordingly, the assets and liabilities of the subsidiary deconsolidated from the Company's financial results as of the sale date. The sale is consistent with the Group's strategic objectives and will allow for a more focused approach to its core operations.
- 13 As per Ind AS 108, 'Operating Segments', the Company has disclosed the segment information only as part of the consolidated financial
- 14 Above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the stock exchange websites, www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the Company's website www.vaibhayglobal.com.

For and on behalf of the Board of Directors

Sunil Agrawal Managing Director DIN: 00061142



Place : Jaipur

Date: 11 November, 2024